

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग

परिशिष्ट- 1
 नि:शुल्क

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत.....जिला भिण्ड (म.प्र.)

2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी,

नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद.....

जिला भिण्ड (म.प्र.)

विषय :— राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदाय करने वाले।

आवेदक का परिवार समग्र कोड क्रमांक

<input type="checkbox"/>					
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

आवेदक का समग्र कोड क्रमांक

<input type="checkbox"/>					
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

आवेदक का आधार कार्ड क्रमांक

<input type="checkbox"/>					
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

आवेदक का बीपी एल कार्ड क्रमांक

<input type="checkbox"/>				
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

1. आवेदक का नाम श्री/ श्रीमती/ कु.

2. पिता / पति का नाम श्री

3. जाति वर्ग

<input type="checkbox"/>

 एससी एसटी ओबीसी सामान्य अल्प संख्यक

4. आवेदक की जन्म तिथि

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

5. मृतक का नाम स्वर्गीय श्री/ श्रीमती/ कु.

6. मृतक का आयु

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

7. मृतक की मृत्यु का दिनांक

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8. मृतक की मृत्यु का कारण
.....

9. मृतक की मृत्यु का स्थान
.....

10. आवेदक का मृतक से रिश्ता
.....

आवेदक

का

फोटोग्राफ

11. मृतक के परिवार के आश्रित सदस्यों की जानकारी

क्रं.	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					

12. आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता

13. आवेदक के वर्तमान निवास स्थान का पूर्ण पता

14. दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में क्या पुलिस थाने में सूचना दी गई है, यदि हां तो पुलिस थाने का नाम.....

15. आवेदक का बचत खाता

आवेदक / खाताधारक का नाम	बैंक का नाम व पता	बचत खाता क्रमांक	IFSC कोड

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा

:: घोषणा पत्र ::

मैं कुमारी/श्री/श्रीमती

पिता/पति

निवासी

सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई

गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाने पर मुझे प्रदाय की गई आर्थिक सहायता राशि शासन द्वारा मुझसे वसूली की जा सकती है।

संलग्न दस्तावेज का विवरण

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 1 (भाग - एक)

ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी द्वारा परिवार की आय व नये मुखिया के बारे में तस्दीक/जांच

प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमती
पिता/पति.....आयु.....निवासी
ग्राम/नगरीय वार्ड क्रमांक.....की मृत्यु दिनांक.....
को.....कारणों से हुई।

2. मृतक का परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सर्वे सूची क्रमांक.....वर्ष.....पर अंकित है

या
मेरे द्वारा स्वयं की जांच के आधार पर प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि समस्त स्त्रीओं से मृतक के परिवार की वार्षिक आय लगभग रूपये.....प्रतिवर्ष थी तथा उसका परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।

3. स्वर्गीय कुमारी/श्री/श्रीमती.....की मृत्यु अप्राकृतिक रूप से दुर्घटनावश हुई है तथा इस संबंध में पुलिस थाना.....में प्रकरण क्रमांक.....दर्ज हुआ है।

4. कुमारी/श्री/श्रीमती.....जो कि मृतक का/की.....है (संबंध बताये) को आर्थिक सहायता दिये जाने का अनुशंसा की जाती है।, क्योंकि अब वे ही परिवार के मुखिया के रूप में इस परिवार की देखरेख व पालन पोषण करेंगे/करेंगी।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

सरपंच/पंच/सचिव ग्राम पंचायत
नगर निकाय के संबंधित
वार्ड मेम्बर या अधिकृत अधिकारी के
हस्ताक्षर तथा सील

// सत्यापन //

कार्यालय जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद
जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कु.

पिता/पति श्री

निवासी ग्राम/नगर

विकासखण्ड

जिला भिण्ड द्वारा जनपद पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर

परिषद

जिला भिण्ड को प्रस्तुत राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के

आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदक को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है:-

5. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति होने के कारण आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।
6. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों की पूर्ति न होने के कारण आवेदन पत्र निरस्त किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

गवाह (नाम व हस्ताक्षर)

1.

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर
जनपद पंचायत/नगर निगम/
नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा
अधिकृत अधिकारी

2.

काली